

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417]

No. 417]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2002/भाद्र 15, 1924

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2002/BHADRA 15, 1924

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2002

सं. 91/2002-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 622(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 98.01 की उप मद (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश के आर्थिक विकास का ध्यान रखते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 42/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(क) क्रम सं० 24 तथा संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा संबद्ध प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“ 24. कोयली - नवागम- विरामगाम-सिधपुर -कोट - संगनेर प्रोडक्ट पाइप लाइन परियोजना । ”

(ख) क्रम सं० 25 तथा संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या तथा संबद्ध प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“ 26. मानव या पशु के उपयोग के लिए जल संभरण के लिए पेय जल संभरण परियोजना । ” ।

स्पष्टीकरण- पेय जल संभरण परियोजना में जल के डीसेलीनेशन, डीमीनरलाइजेशन, या शुद्धिकरण संयंत्र या जल पर इसी तरह के अन्य प्रक्रिया या प्रक्रियाओं, जिससे पानी मानव या पशु के उपयोग के लिए उपर्युक्त बनाया जा सके, के लिए संयंत्र सम्मिलित हैं, लेकिन औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल संभरण संयंत्र शामिल नहीं है ।

27. हजीरा में, मे0 हजीरा एल एन जी प्राइवेट लिमिटेड की द्रविकृत प्राकृतिक गैस परियोजना ।
28. मुन्द्रा - कांडला कच्चे तेल के लिए पाइपलाइन परियोजना ।
29. पानीपत -रिवाडी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना ।
30. कांडला - भटिण्डा पाइप लाइन परियोजना के कांडला - पानीपत खंड के कच्चे तेल के लिए उपयोग के लिए परिवर्तन की परियोजना ।”।

[फा. सं. 354/159/2002-टी.आर.यू.]

विवेक प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.कानि. 294 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 24/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 (सा.कानि. 121 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002) द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2002

No. 91/2002-CUSTOMS

G.S.R. 622(E).— In exercise of the powers conferred by sub-item (6) of heading 98.01 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, having regard to the economic development of the country, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 42/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, namely:-

In the said notification,

(a) for serial 24 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:-

“24. Koyali-Navagam-Viramgam-Sidhpur-Kot-Sanganer Product Pipeline Project.”

(b) after serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“26. Drinking Water Supply Projects for supply of water for human or animal consumption.

Explanation.- Drinking Water Supply Project includes a plant for desalination, demineralization or purification of water or for carrying out any similar process or processes intended to make the water fit for human or animal consumption, but does not include a plant supplying water for industrial purposes.

27. LNG Terminal Project of M/s Hazira LNG Private Limited at Hazira (Gujarat).

28. Mundra-Kandla Crude Oil Pipeline Project.

29. Panipat-Rewari Product Pipeline Project.

30. Project for Conversion of Kandla-Panipat Section of Kandla-Bhatinda Pipeline Project into Crude Oil service.”.

[F. No. 354/159/2002-TRU]

VIVEK PRASAD, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 294 (E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended by notification No.24/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 [G.S.R. 121(E) dated the 1st March, 2002]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2002

सं. 92/2002-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 623(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रोजेक्ट आयात विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाती है, अर्थात् :-

1.(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रोजेक्ट आयात (संशोधन) विनियम, 2002 है ।

(ii) ये सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रोजेक्ट आयात विनियम 1986 में, सारणी में क्रम सं० 3 तथा संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगी, अर्थात् :-

सारणी	प्रायोजक अधिकारी
“क्रम सं० 3क. संयंत्र या परियोजना का नाम मानव या पशु के उपयोग के लिए जल संभरण के लिए पेय जल संभरण प्रोजेक्ट	प्रोजेक्ट के स्थानीय जिले का कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/ डिप्टी कमीशनर । ” ।

[फा. सं. 354/159/2002-टी.आर.यू.]

विवेक प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 580 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 54/97-सीमाशुल्क, तारीख 5 जून, 1997 (सा.का.नि. 308 (अ), तारीख 5 जून, 1997) द्वारा संशोधन किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2002

No. 92/2002-CUSTOMS

G.S.R. 623(E).— In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby make the following regulations further to amend the Project Imports Regulations, 1986, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Project Imports (Amendment) Regulations, 2002.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Project Import Regulations, 1986, in the Table, after Sr. No.3 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

TABLE		
Sr. No.	Name of the Plant or Project	Sponsoring Authority
“3A.	Drinking Water Supply Projects for supply of water for human or animal consumption.	Collector/District Magistrate/Deputy Commissioner of the District in which the project is located.”.

[F. No. 354/159/2002-TRU]

VIVEK PRASAD, Under Secy.

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 580 (E), dated the 3rd April, 1986 and was last amended by notification No.54/97-Customs, dated the 5th June, 1997 [G.S.R.308 (E) dated the 5th June, 1997]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2002

सं. 93/2002-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 624(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 401 तथा संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या तथा संबद्ध प्रविष्टि अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"401क	98.01	मानव या पशु के उपयोग के लिए जल संभरण के लिए पेय जल संभरण प्रोजेक्ट	कुछ नहीं	कुछ नहीं	" ।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, पेय जल संभरण प्रोजेक्ट में जल के डीसेलीनेशन, डीमीनरलाइजेशन, या शुद्धिकरण संयंत्र या जल पर इसी तरह के अन्य प्रक्रिया या प्रक्रियाओं, जिससे पानी मानव या पशु के उपयोग के लिए उपर्युक्त बनाया जा सके, के लिए संयंत्र सम्मिलित हैं, लेकिन औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल संभरण संयंत्र शामिल नहीं है ।

[फा. सं. 354/159/2002-टी.आर.यू.]

विवेक प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना सं. 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 84/2002-सीमाशुल्क, तारीख 19 अगस्त, 2002 (सा.का.नि. 580 (अ), तारीख 19 अगस्त, 2002) द्वारा संशोधन किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2002

No. 93/2002-CUSTOMS

G.S.R. 624(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21 / 2002-Customs, dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification, in the Table, after S. No.401 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"401A.	98.01	Drinking Water Supply Projects for supply of water for human or animal consumption	Nil	Nil	"

Explanation.- For the purposes of this exemption, Drinking Water Supply Project includes a plant for desalination,

demineralization or purification of water or for carrying out any similar process or processes intended to make the water fit for human or animal consumption, but does not include a plant supplying water for industrial purposes.

[F. No. 354/159/2002-TRU]

VIVEK PRASAD, Under Secy.

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 21/2002- Customs, dated the 1st March, 2002 [G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002] and was last amended vide notification No.84 /2002- Customs, dated the 19th August, 2002, [G.S.R. 580(E), dated the 19th August, 2002].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2002

सं. 46/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

12-25

सा.का.नि. 625(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 24/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 2001 [सा०का०नि० 313 (अ) तारीख 30 अप्रैल, 2001] का लोप करती है।

[फा. सं. 354/158/2002-टी.आर.यू.]

विवेक प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2002

No. 46/2002-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 625(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944(1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No 24/2001-Central Excise dated the 30th April, 2001 [G.S.R. 313 (E) dated the 30th April, 2001]

[F. No. 354/158/2002-TRU]

VIVEK PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2002

सं. 47/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 626(अ).— केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, ये निदेश देती है कि इसके साथ उपाबद्ध सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक को उक्त सारणी के स्तंभ 3 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से उन बातों की बाबत के सिवाय, और संशोधित किया जायेगा जो ऐसे संशोधन से पूर्व की गई थी या किये जाने से पूर्व जिनका लोप किया गया था।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	9/96-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996	<p>उक्त अधिसूचना में,-</p> <p>(I) सारणी में,-</p> <p>(i) शीर्ष सं0 5 के सामने, स्तंभ (5) के प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखा जायेगा अर्थात:-</p> <p>“ 1”;</p> <p>(ii) शीर्ष सं0 13 के सामने,-</p> <p>(क) स्तंभ (3) में मद 7 के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित किए जायेंगे अर्थात</p> <p>“(8) स्टैंडिंग”</p> <p>(9) झुलसाना अर्थात फैब्रिकों में गुथियों और खुले छोरों को जला देना;</p> <p>(10) संपाकर्तन या बुट्टा कर्तन</p> <p>(11) संसाधन या उष्मा स्थिरीकरण</p> <p>(12) विस्तार करना</p> <p>(ख) स्तंभ (5) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखा जायेगा, अर्थात:-</p> <p>“ 1”;</p> <p>(iii) क्रम सं0 13क के सामने,-</p> <p>(क) स्तंभ (3) में मद 4 के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित किए जायेंगे, अर्थात:-</p> <p>“ (5) झुलसाना अर्थात फैब्रिकों में गुथियों और खुले छोरों को जला देना;</p> <p>(6) रूनाई (क्रोपिंग) अर्थात फैब्रिक से खुले सिरों को यांत्रिक रूप से कर्तन कर दूर करना;</p> <p>(7) एक्रिलिक फाइबर के व्युत्पित फैब्रिक के संबंध में की गई धमन (वाष्प दाब प्रक्रिया)</p> <p>(ख) स्तंभ (5) के प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखा जायेगा</p> <p>“ 1”;</p> <p>(II) शर्त सं0 1 और उससे संबंधित शर्त के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात:-</p>
		<p>शर्त सं0</p> <p>शर्त</p>
		<p>“ 1. ये छूट ऊनी, सूती या मानव निर्मित फाइबरों के बुने हुए फैब्रिक पर लागू नहीं होगी अगर ऐसे फैब्रिकों ऐसे कारखाने में प्रसंस्कृत होते हैं जहाँ विरंजन रंगाई या छप्पाई विद्युत या भाप की सहायता से इन प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक को करने की सुविधाएं हैं”;</p>

2.

6/2002—केन्द्रीय
उत्पाद शुल्क,
तारीख 1 मार्च,
2002

उक्त अधिसूचना में

(I) सारणी में

(i) शीर्ष सं० 100 के सामने, स्तंभ (6) के प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखा जायेगा अर्थात्

“ 21”

(ii) शीर्ष सं० 114 के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में मद 7 के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किए जायेंगे अर्थात्

“(8) स्टैटरिंग”

(9) झुलसाना अर्थात् फैब्रिकों में गुथियों और खुले छोरों को जला देना;

(10) संपाकर्तन या बुट्टा कर्तन

(11) संसाधन या उष्मा स्थिरीकरण

(12) विस्तार करना”

(ख) स्तंभ (6) के प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखा जायेगा अर्थात्

“ 21”

(iii) क्रम सं० 118क के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में मद 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किए जायेंगे, अर्थात्:-

“ (5) झुलसाना अर्थात् फैब्रिकों में गुथियों और खुले छोरों को जला देना;

(6) रूनाई (क्रोपिंग) अर्थात् फैब्रिक से खुले सिरों को यांत्रिक रूप से कर्तन कर दूर करना;

(7) एक्रिलिक फाइबर के व्युत्तित फैब्रिक के संबंध में की गई धमन (वाष्प दाब प्रक्रिया)”;

(ख) स्तंभ (6) के प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखा जायेगा अर्थात्

“ 21”

(iv) क्रम सं० 196 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित की जायेंगी अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“196क.	84	निम्नलिखित माल अर्थात्:-	कुछ नहीं	-	47क ”

या (1) जल संभरण संयंत्र को स्थापित करने के

कोई लिए अपेक्षित सभी प्रकार की मशीन, जिनमें

अन्य यंत्र, उपस्कर और साधित्र, पूरक यंत्र और उनके

अध्याय पुर्जे/भाग सम्मिलित हैं;

(2) पानी को स्रोत से संयंत्र तक लाने के लिए तथा

वहां से संचायक सुविधा तक ले जाने के लिए अपेक्षित

पाइप ।

स्पष्टीकरण- इस छूट के प्रयोजन के लिए पेय जल संभरण संयंत्र में जल के डीसेलीनेशन, डीमीनरलाइजेशन, या शुद्धिकरण के लिए संयंत्र या जल पर इसी तरह के अन्य प्रक्रिया या प्रक्रियाओं, जिससे पानी मानव या पशु के उपयोग के लिए उपर्युक्त बनाया जा सके, के लिए संयंत्र सम्मिलित हैं, लेकिन औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल संभरण संयंत्र शामिल नहीं है ।

		(II) उपाबंध में,-
		(i) शर्त सं० 21 और उससे संबंधित शर्त के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्
शर्त सं०	शर्त	
		<p>“ 21. ये छूट ऊनी, सूती या मानव निर्मित फाइबरों के बुने हुए फैब्रिक पर लागू नहीं होगी अगर ऐसे फैब्रिकों ऐसे कारखाने में प्रसंस्कृत होते हैं जहाँ विरंजन रंगाई या छापाई विद्युत या भाप की सहायता से इन प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक को करने की सुविधाएं हैं ”;</p> <p>(ii) शर्त सं० 47 और उससे संबंधित शर्त के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्</p>
शर्त सं०	शर्त	
		<p>“ 47क. यदि जिस जिले में संयंत्र स्थापित है, उस जिले के कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उप-आयुक्त द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र, अधिकारिता रखने वाले उप-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे माल की निकासी सारणी के स्तंभ (3) में आशयित उपयोग के लिए है । ”</p>
3.	8/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002	<p>उक्त अधिसूचना में</p> <p>(i) पैरा 3 में दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्</p> <p>“ परंतुक उक्त सारणी के शीर्ष सं० 1 के अंतर्गत शून्य दर पर की गई निकासियों के, कुल मूल्य की गणना के लिए, वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 1 अप्रैल, 2002 और 5 सितम्बर, 2002 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के बीच में अधिसूचना सं० 24/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 2001 के अंतर्गत घरेलू उपभोग के लिए, पहली अनुसूची के अध्याय 84 के अंतर्गत आने वाले वॉल या रॉलर बैरिंग की निकासियाँ हिसाब में ली जायेंगी ”</p> <p>(ii) स्पष्टीकरण में खंड झ के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जायेगा</p> <p>(ण) सितम्बर, 2002 के 6 वें दिन के पूर्व, पहली अनुसूची के अध्याय 84 के अंतर्गत आने वाले वॉल या रॉलर बैरिंग की निकासियाँ पर, इस आधार पर संदत्त शुल्क का प्रतिदाय की ऐसी निकासियाँ उक्त सारणी के क्रम सं० 1 के अधीन निकासियों के कुल मूल्य में सम्मिलित हैं, अनुज्ञेय नहीं होगा । ”</p> <p>(iii) उपाबंध में मद (xxiii) और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जायेगा</p>
4.	9/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002	<p>उक्त अधिसूचना में</p> <p>(i) पैरा 3 में दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जायेगा अर्थात्</p> <p>“ परंतुक उक्त सारणी के शीर्ष सं० 1 के अंतर्गत शुल्क की सामान्य दर का साठ प्रतिशत के रियायती दर पर की गई निकासियों के कुल मूल्य की गणना के लिए, वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 1 अप्रैल, 2002 और 5 सितम्बर, 2002 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के बीच में अधिसूचना सं० 24/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 2001 के अंतर्गत घरेलू उपभोग के लिए पहली अनुसूची के अध्याय 84 के अंतर्गत आने वाले वॉल या रॉलर बैरिंग की निकासियाँ हिसाब में ली जायेंगी ”</p> <p>(ii) स्पष्टीकरण में खंड झ के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जायेगा</p> <p>(ण) सितम्बर 2002 के 6 वें दिन के पूर्व, पहली अनुसूची के अध्याय 84 के अंतर्गत आने वाले वॉल या रॉलर बैरिंग की निकासियाँ पर, इस आधार पर संदत्त शुल्क का प्रतिदाय की ऐसी</p>

		निकासियों उक्त सारणी के क्रम सं० 1 के अधीन निकासियों के कुल मूल्य में सम्मिलित हैं, अनुज्ञेय नहीं होगा । ” (iii) उपाबंध में मद (xxiii) और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जायेगा
5.	14/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002	उक्त अधिसूचना में (i) तीसरे और चौथे परंतुक का लोप किया जायेगा (ii) स्पष्टीकरण IV का लोप किया जायेगा (iii) सारणी में क्रम सं० 4क और 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा (iv) शर्त सं० 6 और उससे संबंधित शर्त का लोप किया जायेगा

[फा. सं. 354/158/2002-टी.आर.यू.]

विवेक प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण :—(1) मूल अधिसूचना सं० 9/96-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा० का० नि० 307 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 26/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27 अप्रैल, 2002 [सा०का०नि० 305 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2002] द्वारा किया गया ।

(2) मूल अधिसूचना सं० 6/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा० का० नि० 127 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 44/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28 अगस्त, 2002 [सा०का०नि० 609 (अ), तारीख 28 अगस्त, 2002] द्वारा किया गया ।

(3) मूल अधिसूचना सं० 8/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा० का० नि० 129 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 26/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27 अप्रैल, 2002 [सा०का०नि० 305 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2002] द्वारा किया गया ।

(4) मूल अधिसूचना सं० 9/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा० का० नि० 130 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 2/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27 अप्रैल, 2002 [सा०का०नि० 305 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2002] द्वारा किया गया ।

(5) मूल अधिसूचना सं० 14/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा० का० नि० 135 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 40/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 14 अगस्त, 2002 [सा०का०नि० 567 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2002] द्वारा किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2002

No. 47/2002-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 626(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944(1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) , the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column(2) of the Table hereto annexed , shall be further amended, except as respects things done or omitted to be done before such amendments, in the manner specified in the corresponding entry in column(3) of the said Table.

28/302/02-2

TABLE

S.No	Notification No. and date	Amendment				
(1)	(2)	(3)				
1.	9/96- Central Excise, dated the 23 rd July, 1996	<p>In the said notification,-</p> <p>(I) in the Table,-</p> <p>(i) against S.No. 5, for the entry occurring in column (5), the following entry shall be substituted, namely:- “1”;</p> <p>(ii) against S.No. 13,-</p> <p>(a) in column (3), after item (7), the following items shall be inserted, namely:- “(8) Stentering; (9) Singeing, that is to say, burning away of knots and loose ends in the fabrics; (10) Cropping or butta cutting; (11) Curing or heat setting; or (12) Expanding.”;</p> <p>(b) for the entry occurring in column (5), the following entry shall be substituted, namely:- “1”;</p> <p>(iii) against S.No. 13A,-</p> <p>(a) in column (3), after item (4), the following items shall be inserted, namely:- “(5) Singeing, that is to say, burning away of knots and loose ends in the fabrics; (6) Cropping, that is to say, cutting away mechanically of loose ends from the fabrics; or (7) The process of blowing (steam pressing) carried on woven fabrics of acrylic fibre.”;</p> <p>(b) for the entry occurring in column (5), the following entry shall be substituted, namely:- “1”;</p> <p>(II) for Condition No. 1 and the condition relating thereto, the following shall be substituted, namely:-</p> <table><tr><th>Condition No.</th><th>Conditions</th></tr><tr><td>“1.</td><td>The exemption shall not apply to woven fabrics of wool, cotton, or man-made fibres, if such fabrics are processed in a factory having facilities (including plant and equipment) for carrying out bleaching, dyeing or printing or any one or more of these processes with the aid of power or steam.”;</td></tr></table>	Condition No.	Conditions	“1.	The exemption shall not apply to woven fabrics of wool, cotton, or man-made fibres, if such fabrics are processed in a factory having facilities (including plant and equipment) for carrying out bleaching, dyeing or printing or any one or more of these processes with the aid of power or steam.”;
Condition No.	Conditions					
“1.	The exemption shall not apply to woven fabrics of wool, cotton, or man-made fibres, if such fabrics are processed in a factory having facilities (including plant and equipment) for carrying out bleaching, dyeing or printing or any one or more of these processes with the aid of power or steam.”;					
2.	6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002	<p>In the said notification,-</p> <p>(I) in the Table,-</p> <p>(i) against S.No. 100, for the entry occurring in column (6), the following entry shall be substituted, namely:- “21”;</p>				

(ii) against S.No. 114,-

(a) in column (3), after item (7), the following items shall be inserted, namely:-

- “(8) Stentering;
- (9) Singeing, that is to say, burning away of knots and loose ends in the fabrics;
- (10) Cropping or butta cutting;
- (11) Curing or heat setting; or
- (12) Expanding.”;

(b) for the entry occurring in column (6), the following entry shall be substituted, namely:-

“21”;

(iii) against S.No. 118A,-

(a) in column (3), after item (4), the following items shall be inserted, namely:-

- “(5) Singeing, that is to say, burning away of knots and loose ends in the fabrics;
- (6) Cropping, that is to say, cutting away mechanically of loose ends from the fabrics; or
- (7) The process of blowing (steam pressing) carried on woven fabrics of acrylic fibre.”;

(b) for the entry occurring in column (6), the following entry shall be substituted, namely:-

“21”;

(iv) after S.No 196 and the entries relating thereto, the following shall be inserted , namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“196A	84 or any other Chapter	The following goods, namely:- (1) All items of machinery, including instruments, apparatus and appliances, auxiliary equipment and their components/ parts required for setting up of water treatment plants; (2) Pipes needed for delivery of water from its source to the plant and from there to the storage facility. <i>Explanation.</i> - For the purposes of this exemption, water treatment plants	Nil	-	47 A

		<p>includes a plant for desalination, demineralization or purification of water or for carrying out any similar process or processes intended to make the water fit for human or animal consumption, but does not include a plant supplying water for industrial purposes.</p> <p>(II) in the Annexure, -</p> <p>(i) for Condition No. 21 and the condition relating thereto, the following shall be substituted, namely:-</p> <table><tr><th>Condition No.</th><th>Conditions</th></tr><tr><td>"21.</td><td>The exemption shall not apply to woven fabrics of wool, cotton, or man-made fibres, if such fabrics are processed in a factory having facilities (including plant and equipment) for carrying out bleaching, dyeing or printing or any one or more of these processes with the aid of power or steam.”;</td></tr></table> <p>(ii) after Condition No 47 and the condition relating thereto, the following shall be inserted, namely:-</p> <table><tr><th>Condition No.</th><th>Conditions</th></tr><tr><td>"47A.</td><td>If, a certificate issued by the Collector/ District Magistrate /Deputy Commissioner of the District in which the plant is located, is produced to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction, to the effect that such goods are cleared for the intended use specified in column (3) of the Table.”.</td></tr></table>	Condition No.	Conditions	"21.	The exemption shall not apply to woven fabrics of wool, cotton, or man-made fibres, if such fabrics are processed in a factory having facilities (including plant and equipment) for carrying out bleaching, dyeing or printing or any one or more of these processes with the aid of power or steam.”;	Condition No.	Conditions	"47A.	If, a certificate issued by the Collector/ District Magistrate /Deputy Commissioner of the District in which the plant is located, is produced to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction, to the effect that such goods are cleared for the intended use specified in column (3) of the Table.”.
Condition No.	Conditions									
"21.	The exemption shall not apply to woven fabrics of wool, cotton, or man-made fibres, if such fabrics are processed in a factory having facilities (including plant and equipment) for carrying out bleaching, dyeing or printing or any one or more of these processes with the aid of power or steam.”;									
Condition No.	Conditions									
"47A.	If, a certificate issued by the Collector/ District Magistrate /Deputy Commissioner of the District in which the plant is located, is produced to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction, to the effect that such goods are cleared for the intended use specified in column (3) of the Table.”.									
3.	8/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002	<p>In the said notification,-</p> <p>(i) in paragraph 3, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely</p> <p>“Provided also that the clearances for home consumption of ball or roller bearings falling under Chapter 84 of the First Schedule made under notification No. 24/2001-Central Excise, dated the 30th April, 2001, between the 1st day of April, 2002 and the 5th day of September 2002,</p>								

		<p>(both days inclusive), shall be taken into account when computing the aggregate value of clearances at Nil rate of duty under Sl. No. 1 of the said Table, for the financial year 2002-2003.”</p> <p>(ii) in the Explanation, after clause (J), the following clause shall be inserted, namely:- “(K) refund of duty paid on clearances of ball or roller bearings falling under Chapter 84 of the First Schedule, made before the 6th day of September, 2002 on the ground that such clearances are included in the aggregate value of clearances under Sl. No. 1 of the said Table, shall not be admissible ;</p> <p>(iii) in the Annexure, item (xxiii) and the entry relating thereto shall be omitted.</p>
4.	9/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002	<p>In the said notification,-</p> <p>(i) in paragraph 3, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely “Provided also that the clearances for home consumption of ball or roller bearings falling under Chapter 84 of the First Schedule made under notification No. 24/2001-Central Excise dated 30th April, 2001, between the 1st day of April, 2002 and the 5th day of September 2002, (both days inclusive), shall be taken into account when computing the aggregate value of clearances at the concessional rate of sixty per cent of normal duty under Sl. No. 1 of the said Table in the financial year 2002-2003.”</p> <p>(ii) in the Explanation, after clause (J), the following clause shall be inserted, namely:- “(K) refund of duty paid on clearances of ball or roller bearings falling under Chapter 84 of the First Schedule, made before the 6th day of September, 2002 on the ground that such clearances are included in the aggregate value of clearances under Sl. No. 1 of the said Table, shall not be admissible ;</p> <p>(iii) in the Annexure, item (xxiii) and the entry relating thereto shall be omitted</p>
5.	14/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002	<p>In the said notification,-</p> <p>(i) the third and fourth provisos shall be omitted;</p> <p>(ii) the <i>Explanation</i>.- IV shall be omitted;</p> <p>(iii) in the Table, S.Nos. 4A and 5A and the entries relating thereto shall be omitted;</p> <p>(iv) the Condition No. 6 and the conditions relating thereto shall be omitted.</p>

[F No. 354/158/2002-TRU]

VIVEK PRASAD, Under Secy.

Note :—

- (1) The principal notification No. 9/96-Central Excise, dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 307 (E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended by notification No. 26/2002-Central Excise, dated the 27th April, 2002 [G.S.R. 305 (E), dated the 27th April, 2002].
- (2) - The principal notification No. 6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 127 (E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 44/2002-Central Excise, dated the 28th August, 2002 [G.S.R. 609 (E), dated the 28th August, 2002].
- (3) The principal notification No. 8/2002-Central Excise, dated the 1st March 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R 129(E) dated the 1st March 2002 and was last amended by notification No. 26/2002-Central Excise, dated the 27th April, 2002 (G.S.R 305 (E) dated the 27th April, 2002)
- (4) The principal notification No. 9/2002-Central Excise, dated the 1st March 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R 130 (E) dated the 1st March 2002 and was last amended by notification No. 26/2002-Central Excise, dated the 27th April, 2002 (G.S.R 305 (E) dated the 27th April, 2002)
- (5) The principal notification No. 14/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 135 (E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 40/2002-Central Excise, dated the 14th August, 2002 [G.S.R. 567 (E), dated the 14th August, 2002].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2002

सं. 29/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी)

सा.का.नि. 627(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 6/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.), तारीख 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : -

उक्त अधिसूचना में , -

- (i) पैराग्राफ 2 में, उप खंड (ख) के पश्चात्, उप पैराग्राफ (iii) का लोप किया जायेगा ।
- (ii) स्पष्टीकरण 3 में परन्तुक का लोप किया जायेगा ।
- (iii) स्पष्टीकरण 6 का लोप किया जायेगा ।

[फा. सं. 354/158/2002-टी.आर.यू.]

बिबेक प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना सं. 21/2002 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 145 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 16/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), तारीख 27 अप्रैल, 2002 [सा.का.नि. 306 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2002] द्वारा संशोधन किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2002

No. 29/2002-CENTRAL EXCISE (N.T.)

G.S.R. 627(E).— In exercise of the powers conferred by rule 11 of the CENVAT Credit Rules, 2002, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2002-Central Excise (N.T.), dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification,-

- (i) in paragraph 2, after sub-clause (b), sub-paragraph (iii) shall be omitted;
- (ii) in *Explanation 3*, the proviso shall be omitted;
- (iii) *Explanation 6* shall be omitted.

[F No. 354/158/2002-TRU]

VIVEK PRASAD, Under Secy.

Footnote:— The principal notification No. 6/2002-Central Excise (N.T.), dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 145 (E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 16/2002-Central Excise (N.T.), dated the 27th April, 2002 [G.S.R. 306 (E), dated the 27th April, 2002].

